

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन की भविष्योन्मुखी वृद्धि को बेहतर बनाने में मदद करें

सिटी, ब्रैम्पटन के नए ऑफिशियल प्लान - "ब्रैम्पटन प्लान" के बारे में कम्युनिटी से सुझाव मांग रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (22 मार्च, 2021) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, शनिवार, 10 अप्रैल को, सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, पूरी सिटी में पब्लिक वर्कशॉप, [ब्रैम्पटन प्लान: सिटी स्ट्रक्चर वर्कशॉप \(Brampton Plan: City Structure Workshop\)](#) का आयोजन कर रही है। इस वर्कशॉप में सिटी, अपने ब्रैम्पटन प्लान (Brampton Plan) के बारे में निवासियों, कारोबारियों, कम्युनिटी ग्रुप्स और स्टेकहोल्डर्स से सुझाव एकत्र करेगी।

यह वर्कशॉप, सुझाव इकट्ठे करने के लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों की सीरीज का हिस्सा है क्योंकि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, ब्रैम्पटन प्लान, सिटी के ऑफिशियल प्लान समीक्षा (Official Plan Review) के अगले फेज में दाखिल हो रही है। ब्रैम्पटन प्लान, इस बारे में रोडमैप तैयार करेगा कि भविष्य में सिटी कैसे विकास और वृद्धि करेगी।

2021 के दौरान, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, निवासियों, कम्युनिटी ग्रुप्स और एजेंसियों, इंडीजीन्स (Indigenous) लोगों, बिल्डरों, डिवेल्पर्स, लोकल स्टेकहोल्डर्स और सरकार के अन्य महकमों के साथ, ब्रैम्पटन 2040 विजन (Brampton 2040 Vision) को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापक कम्युनिटा मशिवरा प्रक्रिया जारी रखेगी। ये सुझाव, ब्रैम्पटन के लिए अधिक जोशीला, पर्यावरणीय दृष्टि से स्थिर और अधिक स्वस्थ भविष्य बनाने में मदद करेंगे।

कम्युनिटी का फीडबैक, सिटी काउंसिल (City Council) का मार्गदर्शन करने में मदद करेगा। काउंसिल द्वारा मंजूर किए जाने पर, ब्रैम्पटन प्लान, ब्रैम्पटन में वृद्धि और भविष्योन्मुखी विकास को व्यवस्थित करने और इसका मार्गदर्शन करने के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क स्थापित करेगा। ब्रैम्पटन प्लान निर्धारित करेगा कि घर, दुकानों और कारोबार, पार्क, ट्रेल्स और कुदरती क्षेत्र कहां बनाए जाएंगे, साथ ही यह भी निर्धारित करेगा कि 700,000 से अधिक लोगों की आबादी वाले, तेज़ी से बढ़ते शहर को सहयोग करने के लिए, सड़कें, ट्रांज़िट और अन्य जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर कहां आवश्यक है।

2006 में ब्रैम्पटन के पिछले ऑफिशियल प्लान के बाद, सिटी कैनेडा का नौवां सबसे बड़ा शहर बन गई है और प्रोविंसियल औसत के मुकाबले, आबादी में वृद्धि तीन गुणा अधिक है। प्रोविंसियल और रीजनल प्लानिंग पॉलिसीज में भी बदलाव हुए हैं। ब्रैम्पटन प्लान, इन प्लानिंग पॉलिसीज को सिटी के स्ट्रैटजिक प्लान्स, प्रोजेक्ट्स और विकास के साथ जोड़ेगा, ताकि *टर्म ऑफ काउंसिल प्राइरिटीज (Term of Council Priorities)* को सहयोग करने के साथ-साथ, *ब्रैम्पटन 2040 विजन: लिविंग द मोजैक (Brampton 2040 Vision: Living the Mosaic)* की अकांक्षा पूरी की जा सके।

निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे, जारी पहलकदमियों के बारे में और जानने, आगामी कार्यक्रमों के लिए रजिस्टर करने और इस बारे में वोट देने के लिए आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, Brampton.ca/BramptonPlan पर जाएं। सवालों या टिप्पणियों के लिए [/sqmail/src/compose.php?send_to=opreview@brampton.ca](mailto:sqmail/src/compose.php?send_to=opreview@brampton.ca) पर ईमेल करें।

हवाले

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में हमारे द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य, लोगों पर केंद्रित होता है। भविष्य में जैसे-जैसे हमारी वृद्धि और विकास होगा, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का मार्गदर्शन करने के लिए हम लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिए ब्रैम्पटन प्लान के लिए जनता के सुझाव बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस पूरी मशविरा प्रक्रिया के द्वारा, हम हर किसी से अनुरोध करते हैं कि एक ऐसा खास शहर बनाने के बारे में अपने सुझाव प्रदान करें, जो सुरक्षित, स्थिर और सफल हो।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन 2040 विजन: लिविंग द मोजैक ब्रैम्पटन के लिए अधिक स्थिर और जोशीले भविष्य को दर्शाता है। ब्रैम्पटन प्लान इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम निवासियों के साथ अधिक भागीदारी के लिए उत्साहित हैं क्योंकि हम हमारे ऑफिशियल प्लान की समीक्षा के अगले फेज में दाखिल हो रहे हैं। इकट्ठे मिलकर हम यह सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस और विचारशील फ्रेमवर्क स्थापित करेंगे कि सिटी के अधिक लॉन्ग-टर्म वाले विजन को लागू करने के लिए, सिटी की पूरी प्लानिंग, प्रोजेक्ट और विकास एक साथ काम कर रहे हैं।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; चेयर, प्लानिंग एंड डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“प्लानिंग और डिवेलपमेंट कमेटी का वाइस-चेयर होने के नाते, यह सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है कि ब्रैम्पटन में इस ढंग से वृद्धि हो, जिससे संपूर्ण कम्युनिटी को फायदा पहुंचे, यह हमारे रीजनल ऑफिशियल प्लान के मुताबिक हो और ब्रैम्पटन के भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करता हो। मैं निवासियों और स्टैकहोल्डर्स को सलाह देता हूँ कि वे इस प्रक्रिया में हिस्सा लेकर, अपने विचार प्रदान करें क्योंकि हम सिटी के नए ऑफिशियल प्लान को विकसित कर रहे हैं।”

- पैट फोर्टिनी (Pat Fortini), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8; वाइस-चेयर, प्लानिंग एंड डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमारे शहर ने, 2006 में ब्रैम्पटन के पिछले ऑफिशियल प्लान की मंजूरी के बाद, महत्वपूर्ण वृद्धि और परिवर्तन देखा है, जैसे हमारी आबादी में 61 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। ब्रैम्पटन एक गतिशील शहर है, जिसका गौरवपूर्ण अतीत और सुनहरा भविष्य है। ब्रैम्पटन प्लान, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को ऐसा स्वागत करने वाला शहर और इस तरह की कम्युनिटी बनाने के लिए, जिसका हर कोई अनुभव करना चाहता है, इसकी वृद्धि और विकास को जारी रखने के तरीके को प्रबंधित करेगा।”

- डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca